



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 16-नवम्बर 22, 2008, शनिवार/कार्तिक 25-अग्राहायणा 1, 1930  
No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 16--NOVEMBER 22, 2008, SATURDAY/KARTIKA 25--AGRAHAYANA I, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2008

सा.का.वि. 202.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग सहायक अधीक्षक (टेलीफोन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग सहायक अधीक्षक (टेलीफोन) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग सहायक अधीक्षक (टेलीफोन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :—

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------	---------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक अधीक्षक (टेलीफोन)	*1 (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', असजपत्रित, अननुसर्चिवीय	5500-175 98000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए  
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों  
के लिए विहित आयु और शैक्षिक  
अर्हताएं प्रान्त व्यक्तियों की दशा में  
लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा  
या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों  
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में भी श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/  
आमेलन किया जाएगा

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विस भी है)/आमेलन द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विस भी है) या आमेलन :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासन संगठनों या स्थानीय निकायों के अधीन एसे अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण  
किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 50000-80000 रुपये या समतुल्य के वेतनमान  
में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा का  
का; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से दूरसंचार या इलैक्ट्रानिक्स में तीन वर्ष को  
अर्वाध का इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य; या

(ii) दूरसंचार या इलैक्ट्रानिक्स में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय  
व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से दूरसंचार या इलैक्ट्रानिक्स में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के  
मध्य ई.पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.एक्स. के अनुश्रवण और मरम्मत का तीन वर्ष का अनुभव,  
इसमें केबलिंग कार्य और पुश्चटन टेलीफोन यंत्रों का फ्रंटलाइन मरम्मत भी है।

**टिप्पणी 1 :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के अधिकारी  
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विस भी है) या आमेलन आधार पर

(12)

नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए अर्हक होंगे। पब्लिक सेक्टर डपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों या स्थानीय निकायों में कार्यरत अधिकारी पद पर आयेलन आधार पर नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संचिदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाइए पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संचिदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संचिदा भी है) या आयेलन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 39021/11/98-स्था.(ख)]

श्रीमती सती मोहनदास, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.कि.नि. सं. 439 तारीख 2 नवंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 12th November, 2008

**G.S.R. 202.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission Assistant Superintendent (Telephones) Group 'B' post Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission Assistant Superintendent (Telephones) Group 'B' post Recruitment Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission Assistant Superintendent (Telephones) Group 'B' post Recruitment Rules, 2002, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

### SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Superintendent (Telephones)	1* (2008) *Subject to variation on workload.	General Central Service, Group 'B', 'Non-Gazetted' Non-Ministerial	Rs.5500-175-9000	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(11)	(12)	
Deputation (including short-term contract)/ Absorption	<p><b>Deputation (including short-term contract) or Absorption :</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations or Local Bodies:—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(iii) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(a) Diploma in Engineering of three years duration in Telecommunications or Electronics from a recognized Board or Institute or equivalent; or</p> <p>(b) Industrial Training Institute Certificate in Telecommunications or Electronics or Certificate Course in Telecommunications or Electronics from National Council of Vocational Training with three years experience in maintenance and repair of EPABX E-PAX including cabling work and frontline repair of push-button telephone instruments.</p> <p><b>Note :</b> The Officers of the Central Government or the State Government or Union Territory Government shall be eligible for appointment on deputation (including short term contract) or absorption basis. Officer working in Public sector undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organizations or local bodies shall not be eligible for appointment to the post on absorption basis.</p> <p>[Period of deputation ( including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment or some other organisations or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.]</p> <p>The maximum age limit for appointment by deputation ( including short-term contract) or absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

[F. No.39021/11/98-Est.(B)]  
SMT. SATI MOHANDAS, Under Secy.

NOTE : The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 439 dated the 2nd day of November, 2002.

4332 GI/08-2